

Scanned by CamScanner

| U | मार्गात किया जाता है कि इस मापीप                                |
|---|---|
| 0 | केलिडिक सिंग रें रियम स्थाप करानि                               |
|   | 101HIKE 3431 राउप र दिल A.                                      |
|   | ८ कियारा कार्य अवर यम्ब   |
| C | M.M. CT.S.Y 4119-11-2016  |
| - | Smiles Slesson bla Path Indi                                    |
|   | Madian Tala के काम का भाषी                                      |
|   | अंकित करने हेतु निशत कियाजाता है                                |
|   | M   |
|   | Executive Engineer  |
|   | R.W.D. works Division   |
|   | G17128  |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
| - |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   | Sch. XLV-Form No. 134   |
|   |   |
|   |   |
|   | The second states of the special and the second second          |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   | Khagania DIVISION Alouli SUB-DIVISON                            |
|   |   |
|   | Khagania DIVISION Alsuli SUB-DIVISON  Weasurement Book          |
|   | Khagania DIVISION Alsuli SUB-DIVISON  Weasurement Book          |
|   | Khagania DIVISION Alsuli SUB-DIVISON  Weasurement Book          |
|   | Khagania DIVISION Alsuli SUB-DIVISON  Weasurement Book          |
|   | Khagania DIVISION Alouli SUB-DIVISON  Weasurement Book No. 1672 |
|   | Khagania DIVISION Alsuli SUB-DIVISON  Weasurement Book          |
|   | Khagania DIVISION Alsuli SUB-DIVISON  Weasurement Book No. 1072 |
|   | Khagania DIVISION Alouli SUB-DIVISON  Weasurement Book No. 1672 |

| 1st on alc Bill  |                |                   |                 |          |                       |  |  |  |  |
|--|----------------|-------------------|-----------------|----------|-----------------------|--|--|--|--|
| ALC BILL   |                |                   |                 |          |                       |  |  |  |  |
| Name of w<br>Situation of<br>Agency by<br>Date of me<br>No. and da | which<br>asure | work is<br>ment - |                 |          |                       |  |  |  |  |
| of the measurements relating to each work.)                        |                |                   |                 |          |                       |  |  |  |  |
| Particulars  | No.            | s of actu         | al measur<br>B. | ement D. | Contents of area      |  |  |  |  |
| Norme of   | Rosa           | 1.                | Cem             |          |                       |  |  |  |  |
|  | of ?           |                   | Com             | fruce    | in                    |  |  |  |  |
|  |                |                   | 100             | m        |                       |  |  |  |  |
| -  | 0              |                   | Shu             | msha     |                       |  |  |  |  |
|  | Pati           | i to              | Dorl            | e'       |                       |  |  |  |  |
| 10.  | Ha             | rijon             | Tola            | ,        |                       |  |  |  |  |
| Agency:  | m/s            | San               | jay k           | ung      | 2                     |  |  |  |  |
| 100  |                |                   | Add-            |          |                       |  |  |  |  |
| -  | Post           | - sax             | si p.           | S-A      | anli                  |  |  |  |  |
| Dis  | t- 14          | hape              | aris            |          |                       |  |  |  |  |
| Agreeme  | nt a           | u- 0              | 6 SB            | /202     | 1-21                  |  |  |  |  |
| Agreeme  | ent r          | alue              | -67             | ,642     | 104200                |  |  |  |  |
| Date of  |                |                   | -18             |          |                       |  |  |  |  |
| Date of  |                |                   |                 |          | 5.2021                |  |  |  |  |
| Date of  |                |                   | -men            |          |                       |  |  |  |  |
|  |                | 111/20            |                 | E 75.7   |                       |  |  |  |  |
| 0  | for            | vídi.             | np a            | m)       |                       |  |  |  |  |
|  |                |                   | work            |          |                       |  |  |  |  |
|  | Ber            |                   |                 | e do     |                       |  |  |  |  |
|  |                | 1.0               |                 |          |                       |  |  |  |  |
| 10   |                |                   | pan             | 0        |                       |  |  |  |  |
|  |                |                   | 0 30            |          |                       |  |  |  |  |
|  |                | -                 |                 |          |                       |  |  |  |  |
|  |                | leval             | clud            | 7        |                       |  |  |  |  |
| 1  |                | Continu           |                 |          |                       |  |  |  |  |
|  |                |                   |                 |          |                       |  |  |  |  |
|  | 18             |                   |                 |          | STATE OF THE PARTY OF |  |  |  |  |

| Sch. XLV-F   | orm I      | No. 13  | 2       |           |  |  |  |  |  |
|--|------------|---------|---------|-----------|--|--|--|--|--|
| Particulars Details of actual measurement Contents |            |         |         |           |  |  |  |  |  |
|  | No.        | L.      | В.      | D.        |  |  |  |  |  |
| 2>   |            |         | X 1.3   |           | = 900.0ur  |  |  |  |  |
| 2×   | 10X        | 30.0    | X 3.5   | =         | 2100.0 w   |  |  |  |  |
| 2×   | 10 ×       | 30.07   | 3.2     | 0 =       | 2)00.0 mos   |  |  |  |  |
| 1  | The second | -7      | 76      | tul =     | 5100,000   |  |  |  |  |
|  |            |         | 510     | 0.000     | 1/22   |  |  |  |  |
|  | 1          | 4,0     | = 0     | 514       | two  |  |  |  |  |
| - (3)  | 300        | Cu      | lting   | O EXC     | 4-   |  |  |  |  |
| 1 10 00  | Vate       | en of   | ir do   | nd        |  |  |  |  |  |
| 400  | way        | · d     |         |           | 14. Jaji   |  |  |  |  |
| 2x   | ×2         | 3000    | X 0 · 3 | 7 SX - 10 | 10=11-25 ur  |  |  |  |  |
| M 2×   | 1X         | 30-0X   | 0.375   | (0.100    | = 11.2542  |  |  |  |  |
| -  | 34         | - 1     | Tot     | ul=       | 22.50 m  |  |  |  |  |
| (4) (  | ennt       | ruch    | 2m      | P         |  |  |  |  |  |
| 1  |            |         | ent 1   |           | -  |  |  |  |  |
|  |            |         |         | riher     | The same of the sa |  |  |  |  |
| 10   | en         | 1       | no f    |           | di Maria   |  |  |  |  |
| Chainage A   | sea        |         |         |           | e Buartely   |  |  |  |  |
|  | 656        | 144     |         | -         | -  |  |  |  |  |
|  | 351        | 0:50    | -       | 50        | 25.30m <sup>3</sup>  |  |  |  |  |
| 100 0.1  | 452        | 0.41    | 1       | 20        | 20.20m3  |  |  |  |  |
| 150 0.5  | 25         | 3.489   |         | 50        | 24.4343  |  |  |  |  |
| 200 0.   |            | 0.695   |         | 50        | 34.75m3  |  |  |  |  |
| 250 0:   | 583        | 0.87    | 6       | D         | 43.80 43   |  |  |  |  |
| 300 0:   | 665        | 0.7     | 76      | 50        | 38.80 w  |  |  |  |  |
| 350 0  | 787        | 0.7     | 26      | to        | 36.30 ms   |  |  |  |  |
| 400 0  | 885        | 0.83    |         | 20        | 41.00 m  |  |  |  |  |
|  | Co         | ontinua | tion    |           |  |  |  |  |  |
| R  |            |         |         |           |  |  |  |  |  |
| 1  | STALL.     |         |         |           |  |  |  |  |  |

| Sch. XLV-   | orm N | 0.13.   | +                       |  |   |
|-------------|-------|---------|-------------------------|--|---|
| Particulars |       | oficial | Contents                |  |   |
|             | No.   | L.      | Б.                      | D.   | of area                                 |
| 1450        | 0.758 | 0.8     | 22                      | 02   | 41.08 m3                                |
| 500         | 1.125 | 0.9     | 42                      | 50   | 47.08m3                                 |
| 120         | 0785  | 0.9     | 53                      | 20   | 47.75m3                                 |
| 600         | 0-985 | 0.8     | 85                      | 20   | 44.25m3                                 |
| 650         | 1.158 | 1.0     | 72                      | 02   | 53.58m²                                 |
| 700         | 0.965 | 1.0     | 62                      | 50   | 53-08m3                                 |
| oz f        | 0.838 | 6.4     | 712                     | 20   | 45.58m3                                 |
| 810         | 0.985 | 0.      | 922                     |  | 46.08m <sup>3</sup>                     |
| 820         | 0.886 | 0.      | 136                     | 20   | 46.78 m3                                |
| 900         | 0.654 | 0.      | 170                     |  | 38-50 m3                                |
|             |       |         | 701                     | w=   | 729.14m3                                |
|             |       | 1444    |                         |  |   |
| 100         | d up  | ste     | 100 1                   | =61  | 9.77 w3                                 |
|             | oad   |         | to Ive                  |  | 11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11. |
| ,           | 14 5  | 10/     | 109                     |  | us.                                     |
|             | 34    | 200     | V HILL                  | DATE:  | Propries                                |
| E           | Cens  | mic     | Bin                     | af   | William                                 |
|             | Sub   |         |                         |  | FIGURE OF                               |
|             | earth |         |                         |  | 11 113 1111                             |
|             | vits  |         |                         |  |   |
|             | mate  |         | And in case of the last | 1  |   |
|             |       |         | THE PARTY NAMED IN      | Name and Address of the Owner, where the Owner, which is the Owner, which is the Owner, where the Owner, which is th | 315-0m3                                 |
| 5X          | 30-07 | 7.0     | × 0.2                   | 60 =   | 315.0 WB                                |
| C X         | 34.34 | Tan     | x 0.31                  | 20 5   | 315.0 m <sup>3</sup>                    |
| >X          | 0 0 0 | Town 7  | X0.1                    | in:  | 315.0ms                                 |
| 5 %         | 30.07 | For     | 2                       | 1  | 1260.0m                                 |
|             |       |         |                         | ly -   | 1200000                                 |
|             | C     | ontinua | ation                   |  |   |

| Particulars | Form No. 134  Details of actual measurement Contents |         |       |            |         |  |  |
|-------------|--|---------|-------|------------|---------|--|--|
| - (2)       | No.  | L.      | В.    | D.         | of area |  |  |
| -13         | + co   | nstru   | chion | of         |         |  |  |
|             |  |         | firce |            |         |  |  |
|             |  |         | conci |            |         |  |  |
|             | Powa   | men     | R M30 | grade      |         |  |  |
| 100 0 30    | do   | -dr     |       | 1/2        | HO CO   |  |  |
| 138-0m38    | /  | -       |       | -          | 70292   |  |  |
| 13          |  |         | and   |            | +0292   |  |  |
|             | Δ.   |         | 47    | 1          |         |  |  |
|             | MM   | Gsy     | Infor | matery     |         |  |  |
| -           | -  |         | nder  | 08         |         |  |  |
|             | log  | 0 40    | do    |            |         |  |  |
| 2.0 Nb 8    | tussi  |         |       | 6/9        |         |  |  |
| 2.0 100 8   | 1/   |         | 4     | A STATE OF | 1924=00 |  |  |
|             | Car  | 76      | al I  | 3227       | 613=00  |  |  |
| Add         | D<br>DST   | @ 12    | 1: £  | 3873       | 13500   |  |  |
| Add (       | 10   | 11      | 1, 2  | 3225       | 76 200  |  |  |
|             |  | 70      | tul 3 | 3647       | 202=0   |  |  |
| -           |  |         |       |            |         |  |  |
| -           |  | 10/11   | 100   | , 1        | 9/12/20 |  |  |
|             |  | Na      | Ha    | 4          | Hado    |  |  |
| time-       |  |         |       |            |         |  |  |
|             |  |         |       |            |         |  |  |
|             | E A  |         |       |            |         |  |  |
|             |  | Continu | ation |            |         |  |  |
|             |  |         |       |            |         |  |  |

| Farticulars | Orm No. 134  Details of actual measurement Contact |       |        |        |  |  |  |
|-------------|--|-------|--------|--------|--|--|--|
| - unculars  | No.  | L.    | B.     | D.     | Conte  |  |  |
|             | 201  |       |        | , ,    |  |  |  |
|             |  | mu    | les.   | 51gn   |  |  |  |
| 1           | 500  | rdh   | roth   | logo   |  |  |  |
|             | as p   | u S   | beist  | cali   | m.   |  |  |
|             | 1  | 2.    | valo   |        |  |  |  |
|             |  |       | 19/0   | Big    | T12/20   |  |  |
| - od        |  | 19    | 2/200  | 5      | E  |  |  |
| W.          | 20   | DES   | (part) | A      | auci   |  |  |
| 32.12       |  |       | 1      |        |  |  |  |
|             |  |       |        |        |  |  |  |
|             | 164  | YOU   |        |        |  |  |  |
| - 1         |  | 214   |        |        |  |  |  |
|             | 1  |       |        |        |  |  |  |
|             |  |       | 4      |        |  |  |  |
| The same    | ma   | teria | el sta | tement |  |  |  |
| Earthn      | The same of the last                               |       | -      | -      |  |  |  |
|             |  |       | , 47 u | 7      |  |  |  |
| Scree W     | up-  | -52   | 52.65  | m3     |  |  |  |
| Sand        | -  | 174.3 | 1 m3   |        |  |  |  |
| (3)         | 194  | 1     | 8      | 8      |  |  |  |
| n Ad        | 9  | 1     | 1      | 1      |  |  |  |
| 7           | 84.3   | 19117 | all    | Afo    | ule  |  |  |
| 22.4        |  | 7911  | 1      | 1-060  |  |  |  |
| ~           | 199  |       | 9.4 3  |        |  |  |  |
|             | 1.30   |       | 4 4    |        | O'CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH |  |  |
|             |  |       |        |        |  |  |  |